



प्रीलिमिंस फैक्ट्स: 22 जून, 2019

- [कोरगा मैन्ग्रोव](#)
- [कुटियाट्टम](#)
- [वाशी पेपर/कागज](#)

कोरगा मैन्ग्रोव

(Coringa Wildlife)

सरकार ने कोरगा वन्यजीव अभयारण्य (Coringa Wildlife Sanctuary) को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

- एक बार यह दर्जा प्राप्त होने के बाद यूनेस्को यहाँ पर्यटन उद्योग को विकसित करने और वन्य जीवों को संरक्षित करने में मदद करेगा।
- पर्यावरण, वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (The Environment, Forests, Science and Technology-EFS&T) विभाग ने इस संदर्भ में सभी मापदंडों को पूरा करने के लिये एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है।
- इस वन्यजीव अभयारण्य में पक्षियों की कुल 120 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें बगुला, राजहंस और तीतर आदि प्रमुख हैं।
- इसके अतिरिक्त यहाँ पर सुनहरा सियार, समुद्री कछुआ और ऊदबलिव भी पाए जाते हैं।
- बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध होने के कारण इस अभयारण्य में पक्षियों की विविधता पाई जाती है।
- इस वन्य अभयारण्य की महत्त्वता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें विलुप्त होने की कगार पर खड़ी कुछ प्रजातियाँ जैसे - लंबी चोंच वाला गदिध और सफ़ेद इबिस आदि भी पाई जाती हैं।

कोरगा वन्यजीव अभयारण्य

- कोरगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्रप्रदेश के काकीनाडा के समीप स्थित है।
- यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है।
- इस अभयारण्य में पक्षियों की 120 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 235.70 वर्ग किलोमीटर है।

कुटियाट्टम (Kutiyattam)

हाल ही में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कपला वेणु ने 'पार्वती वरिहम' का करिदार नभिया। पार्वती वरिहम सदियों पुराने कुटियाट्टम नामक नाटक संग्रह का एक भाग है।

- कुटियाट्टम केरल के सबसे पुराने पारंपरिक थिएटर में से एक है जो संस्कृत परंपराओं पर आधारित है।


॥



- यह मलयालम भाषा में 'कुटी' शब्द से बना है जिसका अर्थ है 'संयुक्त' या 'एक साथ' एवं 'अट्टम' का अर्थ है, 'अभिनय' अतएव 'कुटियाट्टम' का अर्थ 'संयुक्त अभिनय' होता है।
- इसमें शैलीबद्ध और संहिताबद्ध रंगमंचीय भाषा में नेत्र अभिनय (आँख की अभिव्यक्ति) और हस्त अभिनय (इशारों की भाषा) प्रमुख हैं। इसमें मुख्य चरित्र के वचनों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- पारंपरिक रूप से इसका अभ्यास कुट्टमपालम नामक सनिमाघरों में किया जाता है, जो हट्टि मंदिरों में स्थित होते हैं।
- कुट्टियाट्टम का प्रदर्शन पुरुष अभिनेताओं के समुदाय द्वारा किया जाता है जिन्हें 'चक्यार' कहा जाता है और महिला कलाकारों को 'नंगियार' कहा जाता है, इन्हें 'नंबियार' नामक ढोलवादकों द्वारा संगीत दिया जाता है।
- पाकरनट्टम, कुट्टियाट्टम का ही एक स्वरूप है जिसमें पुरुष और महिला भूमिकाओं को भावनात्मकता के साथ प्रदर्शित किया जाता है। पुरुषों एवं महिलाओं का आपस में प्रतिस्थापन तथा एक ही समय में कई भूमिकाओं का व्याख्यान करना इस प्रकार के प्रदर्शनों के अंतर्गत एक चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है।
- कुट्टियाट्टम में नंगियार कुथु महिला प्रदर्शन का एकल खंड है।
- कुट्टियाट्टम में संस्कृत भाषा के लगभग सभी प्रमुख नाटककारों के नाटक शामिल हैं, जिनमें भास, हर्ष, शक्तभद्र, कुलशेखर, नीलकंठ, बोधायन और महेंद्रवकिर्मवर्मन शामिल हैं। लेकिन इसके अपवाद के तौर पर महाकवि कालदित्स और भवभूता को भी शामिल किया गया है, जिनके नाटक पारंपरिक रूप से इस नृत्य कला के प्रदर्शनों का हिस्सा नहीं हैं।
- कुट्टियाट्टम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक वरासत की प्रतिनिधिसूची (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) में शामिल किया गया है।

वाशी पेपर/कागज़ ('Washi' Paper)

वाशी जापान में निर्मित एक प्रकार का कागज़ है। वाशी शब्द जापानी भाषा के शब्द 'वा' से जलिया गया है जिसका अर्थ है 'जापानी' और 'शी' जिसका अर्थ है 'कागज़'।



- इस हस्तनिर्मित कागज़ को वागामी के रूप में भी जाना जाता है और इसे तीन प्रमुख घटकों से बनाया गया है:
 - कोज़ो या 'शहतूत की छाल' (Kozo or 'mulberry bark')
 - मत्सुमाता झाड़ियाँ (Mitsumata shrubs)
 - गम्पी टरी (Gampi tree)
- इन तीन घटकों का उपयोग अकेले या उनकी वशिष्टता के लिये संयोजन में किया जाता है।
 - कोज़ो एक पर्णपाती वृक्ष है जो विश्व के कई हिस्सों में पाया जाता है, यह जापान में क्यूशू द्वीप और शिकोकू में बहुतायत से बढ़ता है। इसकी कठोरता कपड़े के सामान है और जलरोधी के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
 - मत्सुमाता एक झाड़ी है यह मूलरूप से चीन का है और इसका उपयोग जापानी मुद्रा बनाने में किया जाता है। यह हाथीदांत के रंग की, महीन सतह वाली होती है और इसका इस्तेमाल छपाई में किया जाता है। इसका उपयोग मीजी काल (Meiji Period) में कागज़ के पैसे छापने के लिये किया जाता था।
 - गम्पी वृक्ष मूलतः जापान का ही है। सामान्यतः यह दुनिया के अन्य हिस्सों में नहीं पाया जाता। इसका उपयोग पुस्तकों और शिल्प के लिये किया जाता है।
- कभी-कभी कुछ अन्य रेशे जैसे अबका, रेयान, गेहूँ, चावल, बांस, गांजा, आदिको भी वाशी पेपर बनाने के लिये मिलाया जाता है।
- वाशी एक अत्यंत पतला पेपर/कागज़ है, जो कभी लेखन और पेंटिंग से लेकर लैपशेड, छतरियों और स्लाइडिंग दरवाज़ों आदि के लिये उपयोग किया जाता था। लचीलेपन और टिकाऊपन जैसी विशेषताओं के कारण इसका उपयोग जापान में प्राचीन पत्रों और वृत्तचित्रों को संरक्षित करने के लिये किया जाता है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prelims-facts-22-june-2019>

